

प्रेस विज्ञप्ति
थाना जीयनपुर

दो अदद तमंचा .315 बोर व चार अदद कारतूस .315 बोर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.11.2020 को उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह उ0नि0 उमेश कुमार , का0 अमन पासवान , का0 मन्टू यादव व का0 संजय गौड़ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अभियुक्तगण में भ्रमणशील थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति मुबारकपुर मोड़ पर अवैध असलाह लिये खड़े हैं। मुखबिर की इस सूचना पर बिना देरी किये समय 19.10 बजे पुलिस द्वारा मुबारकपुर मोड़ पर पहुंचकर वहां खड़े दोनो व्यक्तियों को एक बारगी घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पुछने पर अपना नाम 1. विजय पुत्र रामराज निवासी छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ तथा 2. प्रकाश कुमार पुत्र लालता प्रसाद निवासी छपिया थाना छपिया जनपद गोण्डा बतायें तथा जामा तलाशी से अभियुक्तों के पास से दो अदद तमंचा .315 बोर व चार अदद कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0 365/2020 धारा 3/25 A Act व 2. मु0अ0सं0 366/2020 धारा 3/25 A Act पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. विजय पुत्र रामराज निवासी छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. प्रकाश कुमार पुत्र लालता प्रसाद निवासी छपिया थाना छपिया जनपद गोण्डा

बरामदगी

दो अदद तमंचा .315 बोर व चार अदद कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 365/2020 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 366/2020 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अमरनाथ यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 उमेश कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 अमन पासवान थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 मन्टू यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. का0 संजय गौड़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़